

जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश

पत्रकार स्वास्थ्य एवं

दुर्घटना समूह बीमा योजना

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर, 2022 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दी गयी है, पत्रकारों के लिये बीमा प्रीमियम की दरें भी वर्ष 2021-22 के अनुसार ही लागू होंगी।

संशोधित प्रीमियम दरों का चार्ट जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo.org पर उपलब्ध है।



**सुरक्षा उनकी
जो हमें रखें जागरूक**



पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

प्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुरक्षा

- स्वास्थ्य बीमा रुपये 4 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रुपये 10 लाख का होगा। साथ ही स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का भी विकल्प होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रुपये का बीमा करवा सकते हैं। 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक योजना के पात्र होंगे।
- बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों की बीमा किश्त का 85 प्रतिशत भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जायेगा।
- पति, पत्नी, बच्चों (अधिकतम 25 वर्ष तक के तीन अविवाहित) एवं माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर, योजना में शामिल किया जा सकेगा।
- बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी।
- जनसम्पर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही संचार संस्थान का फार्म 16 एवं पी.पी.एफ. कटौती की स्लिप देने वाले पत्रकारों को भी पूर्वानुसार पात्रता होगी।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी नई दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों को भी योजना में पात्रता होगी।
- गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार-पत्र के चार, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र-पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक (सेटेलाइट चैनल) एवं न्यूज वेबसाइट (डीएचटीपी/डीपीआर में पंजीकृत) के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। आर.एन.आई. में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।
- पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को ई-कार्ड ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा।
- योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसम्पर्क की वेबसाइट www.mpinfo.org पर उपलब्ध है। प्रीमियम को NEFT कर यू.टी.आर. नंबर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन <https://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.aspx> लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग-अलग फार्म हैं। **निर्धारित फार्म ही भरें।**
- तालिका में पत्रकार पति-पत्नी एवं बच्चों का प्रीमियम जोड़कर दिया गया है। माता-पिता का प्रीमियम अलग से तालिकानुसार जोड़ना होगा।

**आवेदन प्राप्त
होने की
अंतिम तिथि
16 सितम्बर
2022**

संपर्क :

- राजेश रावत, प्रशासनिक अधिकारी, यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी, भोपाल।
फोन नं. 0755-2492757, मो. 7305015820
- संतोष पी. ईशो मैथ्यू, सीनियर डिवीज़नल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी, भोपाल।
फोन नं. 0755-2555338, मो. 9677245634
- पत्रकार कल्याण शाखा, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल। **फोन नं. 0755-4096320**
- बीमा पॉलिसी के कार्ड और क्लेम संबंधी जानकारी के लिये
एम.डी. इण्डिया, फोन नं. 0755- 4936991
मो. : 7391054038 (अनिल) एवं 8956129648 (राहुल राठौर) से संपर्क करें।
- अधिक जमा प्रीमियम राशि हेतु : ई-मेल - uiicdo2bpljins@gmail.com

नोट : यदि पत्रकार अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों को भी योजना में शामिल कराना चाहते हैं, तो तालिका में दर्शाए गए आयु वर्ग के अनुसार प्रीमियम राशि यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम बैंक आफ इंडिया, सचिवालय ब्रांच एमपी नगर, भोपाल खाता क्र. 900520100000291, IFSC कोड-BKID 0009005, MICR कोड-462013006 में NEFT करें।

NEFT की गई राशि का UTR नंबर आवेदन-पत्र में भरें।

बीमा पॉलिसी की विस्तृत जानकारी www.mpinfo.org एवं <https://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.aspx> पर उपलब्ध है।

पत्रकारों के हित में - मध्यप्रदेश सरकार



युनाइटेड इंडिया इश्युरेंस कंपनी लिमिटेड

मंडल कार्यालय- 2, 153, गुरु आर्केड, जॉन-1, एम पी नगर, भोपाल- 462011

वर्ष 2022-23

अधिमन्य पत्रकारों के लिए

बीमा राशि रू 4,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं रू 10,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चाटे (@18% जी. एस. टी. सहित)													
अनु क्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि रू 400000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि रू 1000000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी + 1 बच्चा	स्वयं+पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं+पति/ पत्नी + 3 बच्चे	माता या पिता	माता+ पिता
1	0-35	12611	718	13329	1891	11438	1891	2575	3260	3944	4629	1027	2054
2	36-45	19073	718	19791	2768	17023	2768	3804	4839	5875	6910	1553	3107
3	46-55	23855	718	24573	3417	21156	3417	4712	6007	7301	8596	1942	3885
4	56-60	33604	718	34322	4740	29582	4740	6564	8388	10212	12036	2736	5472

बीमा राशि रू 4,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं रू 10,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चाटे (@18% जी. एस. टी. सहित)													
अनु क्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि रू 400000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि रू 1000000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी					
1	61-70	36832	718	37550	3107	34443	3107	5106					
2	71-80	52254	718	52972	4363	48609	4363	7199					



युनाइटेड इंडिया इश्युरेंस कंपनी लिमिटेड

मंडल कार्यालय- 2, 153, गुरु आर्केड, जॉन-1, एम पी नगर, भोपाल- 462011

वर्ष 2022-23

गैर अधिमन्य पत्रकारों के लिए

बीमा राशि रू 4,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं रू 10,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चाटे (@18% जी. एस. टी. सहित)													
अनु क्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि रू 400000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि रू 1000000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी + 1 बच्चा	स्वयं+पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं+पति/ पत्नी + 3 बच्चे	माता या पिता	माता+ पिता
1	0-35	12611	718	13329	3782	9547	3782	4466	5151	5835	6520	1027	2054
2	36-45	19073	718	19791	5537	14254	5537	6572	7608	8643	9679	1553	3107
3	46-55	23855	718	24573	6834	17739	6834	8128	9423	10718	12013	1942	3885
4	56-60	33604	718	34322	9480	24842	9480	11304	13128	14952	16776	2736	5472
1	61-70	36832	718	37550	10356	27194	10356	12355					
2	71-80	52254	718	52972	14543	38429	14543	17379					



युनाइटेड इंडिया इश्युरेंस कंपनी लिमिटेड
मंडल कार्यालय- 2, 153, गुरु आर्केड, जोन-1, एम पी नगर, भोपाल- 462011

वर्ष 2022-23

अधिमन्य पत्रकारों के लिए

बीमा राशि रू 2,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं रू 5,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@18% जी. एस. टी. सहित)													
अनुक्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि रू 200000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि रू 500000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी + 1 बच्चा	स्वयं+पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं+पति/पत्नी + 3 बच्चे	माता या पिता	माता + पिता
1	0-35	8071	359	8430	1185	7245	1185	1623	2061	2499	2937	657	1314
2	36-45	9538	359	9897	1384	8513	1384	1902	2419	2937	3455	777	1553
3	46-55	14672	359	15031	2081	12950	2081	2878	3674	4471	5267	1195	2390
4	56-60	20249	359	20608	2838	17770	2838	3937	5036	6135	7235	1649	3298
बीमा राशि रू 2,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं रू 5,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@18% जी. एस. टी. सहित)													
अनुक्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि रू 200000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि रू 500000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी					
1	61-70	22301	359	22660	1870	20790	1870	3081					
2	71-80	31106	359	31465	2587	28878	2587	4275					



युनाइटेड इंडिया इश्युरेंस कंपनी लिमिटेड
मंडल कार्यालय- 2, 153, गुरु आर्केड, जोन-1, एम पी नगर, भोपाल- 462011

वर्ष 2022-23

गैर अधिमन्य पत्रकारों के लिए

बीमा राशि रू 2,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं रू 5,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@18% जी. एस. टी. सहित)													
अनुक्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि रू 200000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि रू 500000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी + 1 बच्चा	स्वयं+पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं+पति/पत्नी + 3 बच्चे	माता या पिता	माता + पिता
1	0-35	8071	359	8430	2370	6060	2370	2808	3246	3684	4122	657	1314
2	36-45	9538	359	9897	2768	7129	2768	3286	3803	4321	4839	777	1553
3	46-55	14672	359	15031	4162	10869	4162	4959	5755	6552	7348	1195	2390
4	56-60	20249	359	20608	5676	14932	5676	6775	7874	8973	10072	1649	3298
1	61-70	22301	359	22660	6233	16427	6233	7444					
2	71-80	31106	359	31465	8623	22842	8623	10311					



युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD.

153, Guru Arcade, Nr. Axis Bank, Zone-I, M P Nagar, Bhopal, M P -462011

CIN :U93090TN18938GOI000108

To,
United India Insurance Co. Ltd.
Divisional Office 2 Bhopal

Sub: Refund of Excess Premium for Patrakar Insurance 2022.23

Sir,

Ihave deposited Premium for Patrakar Bīma 2022.23 for Rs..... vide NEFT/RTGS/UPI/IMPS Ref. no. dated in Collection Account of United India Insurance Co. Ltd. Later Government had decreased the premium amount. I request you to kindly refund the excess amount deposited by me. I furnish below details of my bank account to be used for effecting the payments due to me/us by NEFT/RTGS.

Sl. No.	Bank details for NEFT / RTGS	
1.	Name	
2.	Category	Customer (Patrikar)
3.	Permanent Address	
4.	Address for Communication	
5.	Account Number	
6.	Type of Account	Savings/Current
7.	Name of the Bank	
8.	Address of the Bank	
9.	IFSC Code	
10.	MICR Code	
Please attach a copy of Cancelled Cheque leaf. Verify the details with your bank before submitting. To receive alerts from the Company on processing of payments through SMS/E-mail.		
11.	Email	
12.	Mobile Number	

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and express my/our willingness to receive credit of payments through the mode indicated above. Notwithstanding my/our choice of mode, United India Insurance co. Ltd. Reserves the right to issue a Cheque/credit the account in the mode that they deem fit. I/we would not hold United India Insurance Co. Ltd. Responsible, if transaction is delayed or not effected at all or credited to an incorrect account for reasons of incomplete/incorrect information.

Signature of the applicant:
Place:
Date:

उपरोक्त फार्म भरकर निम्नलिखित ई - मेल uiicdo2bpl.jins@gmail.com पर मेल करे।